



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 1, 1973/भाद्रपद 10, 1895

No. 216]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 1, 1973/BHADRA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st September 1973

G.S.R. 417(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (5) of section 23 of the Finance Act, 1973 (21 of 1973), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 118/73-Central Excises, dated the 11th May, 1973, namely:—

In the said notification, in the Table, after S. No. 8, the following shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"9.	16AA	Styrene Butadiene Rubber"

[No. 171/73-F. No. 66/2/73-CX2]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1973

सा० का० नि० 427(अ०).—वित्त अधिनियम, 1973 (1973 का 21) की धारा 28 की उपधारा (5) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1954 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रतत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 118/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क—शुल्क, तारीख 11 मई, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम नं० 8 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
<hr/>		
"9.	16 फक	स्टिरेने बटाडिऐने रबर"

[सं० 171—73 फा० सं० 66/2, 71—सी० एक्स०-2]

G.S.R. 418(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (5) of section 28 of the Finance Act, 1973 (21 of 1973) and the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 118/73—Central Excises, dated the 11th May, 1973, the Central Government hereby exempts Styrene Butadiene Rubber, of the description mentioned in column (1) of the Table hereto annexed and falling under item No. 16AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter called the Central Excises Act), from so much of the auxiliary duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 28 aforesaid, as is in excess of the duty specified in the recorresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Description	Duty as percentage of the value of the goods determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises Act
(1)	(2)
Styrene Butadiene Rubber—	
(i) S-1500 and S-1502 Grades	5.5
(ii) S-1712 Grade	6.25
(iii) S-1958 Grade	20
(iv) Other Grades	Nil

[No. 172/73-F, No. 66/2/73-CX2]
B. K. AGARWAL, Under Secy.

सां० का० नि० 418(अ०)—वित्त अधिनियम, 1973 (1973 का 21) की धारा 28 की उपधारा (5) और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिमूचना सं० 118173—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 1973, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 16 कक के अन्तर्गत आने वाले स्टिरेने बटाईएने रबर को, उस पर उपर्युक्त धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन उदग्रहणीय उतने सहायक उत्पाद-शुल्क से, जितना उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

वर्णन	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित माल के मूल्य के प्रतिशत के रूप में शुल्क।
(1)	(2)
स्टिरेने बटाईएने रबर—	
(1) एस०—1500 और एस०—1502 श्रेणियां	5.5
(2) एस०—1712 श्रेणी	6.25
(3) एस०—1958 श्रेणी	20
(4) अन्य श्रेणियां	कुछ नहीं

[सं०/172/73 का० सं० 6612/73—सी० एक्स०—2]

बी० के० अग्रवाल, अवसर सचिव।

